



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941

No. 485]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/BHADRA 4, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 596(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'घ' अराजपत्रित, अनुसचिवीय तथा अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में कर्मकार इकाई में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), बहु कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता.**—वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	71* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	स्तर-1	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी?
(6)	(7)	(8)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार शिथिलनीय है)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; अथवा समतुल्य अथवा (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण	लागू नहीं होता.

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.	क्या भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय के संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष	लागू नहीं होता

2. प्रशिक्षण महानिदेशालय के संबंधित यूनिट सचिवालय/महिला प्रशिक्षण के समूह 'क' अधिकारी	— सदस्य	
3. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय	- सदस्य	

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**(Directorate General of Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2019

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'D' Non- Gazetted, Ministerial and Non-Ministerial Posts, Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Multi Tasking Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No Person -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	71*(2019) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Level- 1	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxation as per Government of India rules issued from time to time).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation from the recognised Board; or equivalent or (ii) Industrial Training Institute (ITI) pass.	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C', Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of:- (1) Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson (2) Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training –Member (3) Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt(I)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 597(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अतकनीकी पद भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में छात्रावास वार्डन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के छात्रावास वार्डन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छात्रावास वार्डन	04* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	स्तर - 4	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार शिथिलनीय है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) प्रशासन, रोकड़ एवं लेखा कार्य अथवा किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों के छात्रों के लिए छात्रावास के रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव; और (iii) केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्र होंगी।	आयु: नहीं अर्हता: हाँ	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: अवर श्रेणी लिपिक जिनकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती की गयी हो, नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण (1) - केवल महिला अवर श्रेणी लिपिकों पर ही अखिल भारतीय आधार पर उनकी वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण (2) - जहां प्रोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ (ठों) पर भी विचार किया जाएगा। परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा इतनी कम न हो कि वह ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से भी अधिक कम या 2 वर्ष कम हो, जो भी कम हो तथा उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण अथवा विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इतर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2019

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C' Non- Technical post, Recruitment Rules 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hostel Warden in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Hostel Warden, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.—No Person -**
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to any of the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rules.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
HOSTEL WARDEN.	04* (2019) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial).	Level- 4.	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age and (Relaxation as per Government of India rules issued from time to time).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Degree from a recognised University or equivalent; (ii) two years experience in administration, cash and accounts work or maintaining Hostel for students of the recognised Educational Institutes or organisations; and (iii) only female candidate shall be eligible for the post.	Age: No. Qualification: Yes.	Two years.	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Lower Division Clerks who have directly been recruited through Staff Selection Commission with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Note (1) - Only female Lower Division Clerks shall be considered in accordance with their seniority on All India basis.</p> <p>Note (2) - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior(s) would also be considered. Provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concerned unit secretariat/ Women Training Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member 	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt(I)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 1995 को जहां तक उनका संबंध लेखाकार, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के महिला एकक में लेखाकार, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखाकार	18* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	स्तर - 5	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) यूनिट सचिवालय में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। या</p> <p>(ii) यूनिट सचिवालय से ऐसा आशुलिपिक या छात्रावास वार्डन या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण: आशुलिपिक या छात्रावास वार्डन या आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान द्वारा दिया जाने वाला रोकड़ एवं लेखा संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनान्त या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी:</p> <p>(क)</p> <p>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य, सदृश पद धारण करते हो; या</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो - सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 	लागू नहीं होता

<p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 या समतुल्य पद पर नियमित पांच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(iii) रोकड़ और लेखा संबंधी तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक	11* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	स्तर - 4	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु तथा (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश तथा आदेशों के अनुसार शिथिलनीय

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समतुल्य। 2. कौशल परीक्षा मानदंड: श्रुतलेख: 10 मिनट 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से लिप्यंतरण: 50 मिनट (अंग्रेजी) या 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)। 	आयु: नहीं अर्हता: हां	दो वर्ष	प्रोन्नति, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति (यूनिट आधारित): अवर श्रेणी लिपिक ने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) विहित आशुलिपि और टंकण गति रखते हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो - सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय 	लागू नहीं होता

	कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय	- सदस्य
--	---	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उच्च श्रेणी लिपिक	22* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	स्तर – 4	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: यूनिट सचिवालय से नियुक्ति के पश्चात् ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के व्यक्ति समतुल्य पदों पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा</p> <p>वेतन स्तर-2 में ऐसे पदों पर कार्यरत व्यक्ति जिन्होंने नियुक्ति के उपरान्त उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण: पोषक प्रवर्ग कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में आते हों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले प्रोन्नति से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय -सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो - सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4. अवर श्रेणी लिपिक	15* (2019) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित,	स्तर – 2	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

	परिवर्तन किया जा सकता है	अनुसचिवीय)			नियमों के अनुसार शिथिलनीय
--	--------------------------	------------	--	--	---------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य; कौशल परीक्षा मानदंड: कम्प्यूटर पर टंकण की गति 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में तथा 30 श.प्र.मि. हिंदी में (प्रति शब्द) के लिए औसतन 5 कुंजी दाब पर 35 श.प्र.मि. तथा 30 श.प्र.मि. के लिए तदनुरूप 10500 के डीपीएच/9000 केडीपीएच।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	80 प्रतिशत, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती; और 20 प्रतिशत, पात्र बहु कार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस) में से प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: प्रादेशिक यूनिटों में से पात्र बहु कार्य कर्मचारिवृंद में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं रखते हों।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित से मिलकर होगी:- 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/ महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इतर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो - सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2019

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'C' Non-Gazetted, (Ministerial) Recruitment Rules 1995, in so far as they relate to the posts of Accountant, Stenographer, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant, Stenographer, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.—No person –**
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ACCOUNTANT	18* (2019) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' (non-Gazetted, Ministerial)	Level 5	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
---	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>(i) Upper Division Clerk with five years regular services in the grade after appointment thereto on regular basis in the unit secretariat;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) Stenographer or Hostel Warden or Data Entry Operator having five years regular services in the grade after appointment thereto from unit secretariat.</p> <p>Note: Stenographer or Hostel Warden or Data Entry Operator shall complete the essential training provided by Institute of Secretarial Training and Management on cash and accounts.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or PSUs or Recognised research institution or University or statutory or autonomous organisation:</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the post in Level-4 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(iii) three years experience relating to cash and accounts.</p> <p>Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line on the promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship –Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member 	<p>Not applicable</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. STENOGRAPHER	11* (2019) Subject to variation depending on	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted,	Level - 4	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to

	workload	Ministerial)			time)
--	----------	--------------	--	--	-------

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- 12 th class pass or equivalent from a recognized Board or University. Skill Test Norms: Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 50 mts. (English) or 65 mts. (Hindi) (On computer)	Age: No Qualification: Yes	Two years	Promotion, failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion (Unit Basis): Lower Division Clerk with five years regular service in the grade and possessing the stenography and typing speed as prescribed in column (7)	Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. UPPER DIVISION CLERK	22* (2019) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Level - 4	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion, failing which on deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk with five years regular service in the grade after appointment thereto from unit secretariat. Deputation: (i) Persons from the Central Government or the State Government holding analogous posts; or (ii) holding posts in the pay level-2 with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note: The departmental officers in	Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:- <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training – Member 	Not applicable

the feeder category who are in the direct line on the promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. LOWER DIVISION CLERK	15* (2019) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Ministerial)	Level - 2	Not applicable	Between 18 and 25 years of age and (Relaxation as per Government of India rules issued time to time)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th Pass from recognised Board or its equivalent; (ii) Skill Test Norms: Typing speed on computer @ 35 words per minutes in English or 30 words per minutes in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word).	Not applicable	Two years	(i) Eighty per cent. direct recruitment through Staff Selection Commission; and (ii) Twenty per cent. by promotion amongst the eligible Multi Tasking Staff

(11)	(12)	(13)
Promotion: Amongst the eligible Multi Tasking staff having eight years regular service in the regional units and possess essential qualifications mentioned in column (7)	Group 'C', Departmental Promotion Committee, consisting of:- 1. Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training – Chairperson 2. Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training Directorate General of Training. – Member 3. A Group 'A' officer stationed in the same city, other than Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – Member 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training. – Member	Not applicable

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt(I)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.